



Remya Gupta

23 Nov 1987

11:30 PM

Pattanapuram

Model: Web-MyKundli

Order No: 121326301

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 23/11/1987
दिन _____: सोमवार
जन्म समय _____: 23:30:00 घंटे
इष्ट _____: 42:56:18 घटी
स्थान _____: Pattanapuram
राज्य _____: Kerala
देश _____: India

अक्षांश _____: 09:10:00 उत्तर
रेखांश _____: 76:46:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:22:56 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 23:07:04 घंटे
वेलान्तर _____: 00:13:46 घंटे
साम्पातिक काल _____: 03:15:46 घंटे
सूर्योदय _____: 06:19:28 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:59:01 घंटे
दिनमान _____: 11:39:33 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: हेमन्त
सूर्य के अंश _____: 07:13:06 वृश्चिक
लग्न के अंश _____: 25:19:36 कर्क

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: कर्क - चन्द्र
राशि-स्वामी _____: धनु - गुरु
नक्षत्र-चरण _____: मूल - 4
नक्षत्र स्वामी _____: केतु
योग _____: शूल
करण _____: गर
गण _____: राक्षस
योनि _____: श्वान
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: मूषक
युँजा _____: अन्त्य
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: भी-भीनी
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: स्वर्ण - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: धनु

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1909	मार्गशीर्ष	2
पंजाबी	संवत : 2044	मार्गशीर्ष	8
बंगाली	सन् : 1394	मार्गशीर्ष	7
तमिल	संवत : 2044	कार्तिकगई	7
केरल	कोल्लम : 1163	वृश्चिकम	7
नेपाली	संवत : 2044	मार्गशीर्ष	8
चैत्रादि	संवत : 2044	मार्गशीर्ष	शुक्ल 2
कार्तिकादि	संवत : 2044	मार्गशीर्ष	शुक्ल 2

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 2
तिथि समाप्ति काल _____ : 07:27:24
जन्म तिथि _____ : 3
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : ज्येष्ठा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 06:33:20 घंटे
जन्म योग _____ : मूल
सूर्योदय कालीन योग _____ : धृति
योग समाप्ति काल _____ : 22:18:09 घंटे
जन्म योग _____ : शूल
सूर्योदय कालीन करण _____ : कौलव
करण समाप्ति काल _____ : 07:27:24 घंटे
जन्म करण _____ : गर
भयात _____ : 42:21:41
भभोग _____ : 55:13:37
भोग्य दशा काल _____ : केतु 1 वर्ष 7 मा 18 दि

घात चक्र


मास _____ : श्रावण
तिथि _____ : 3-8-13
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : भरणी
योग _____ : वज्र
करण _____ : तैत्तिल
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मार्जार
लग्न _____ : धनु
सूर्य _____ : तुला
चन्द्र _____ : कन्या
मंगल _____ : वृश्चिक
बुध _____ : सिंह
गुरु _____ : धनु
शुक्र _____ : कुम्भ
शनि _____ : कन्या
राहु _____ : कुम्भ

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

रा गु			
			ल
शु चं	श सू	बु मं	के

लग्न कुंडली

		रा गु
ल		
के	मं बु	चं शु सू श

विंशोत्तरी
केतु 1वर्ष 7मा 18दि
केतु

23/11/1987

13/07/2102

केतु	12/07/1989
शुक्र	12/07/2009
सूर्य	13/07/2015
चन्द्र	12/07/2025
मंगल	12/07/2032
राहु	12/07/2050
गुरु	12/07/2066
शनि	12/07/2085
बुध	13/07/2102

योगिनी

उल्का 1वर्ष 4मा 24दि
सिद्धा

18/04/2025

18/04/2032

सिद्धा	28/08/2026
संकटा	18/03/2028
मंगला	28/05/2028
पिंगला	17/10/2028
धान्या	18/05/2029
भामरी	26/02/2030
भद्रिका	16/02/2031
उल्का	18/04/2032

Meenna Salaria Astro & Numerio

Delhi

9667113751

salaria.meena@gmail.com


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			कर्क	25:19:36	347:46:11	आश्लेषा	3	9	चंद्र	बुध	राहु	---
सूर्य			वृश्चि	07:13:06	01:00:40	अनुराधा	2	17	मंगल	शनि	बुध	मित्र राशि
चंद्र			धनु	10:13:20	14:30:15	मूल	4	19	गुरु	केतु	शनि	सम राशि
मंगल			तुला	06:03:31	00:39:12	चित्रा	4	14	शुक्र	मंगल	चंद्र	सम राशि
बुध			तुला	21:17:32	01:29:09	विशाखा	1	16	शुक्र	गुरु	गुरु	मित्र राशि
गुरु	व		मीन	26:53:09	00:04:23	रेवती	4	27	गुरु	बुध	गुरु	स्वराशि
शुक्र			धनु	00:55:58	01:14:37	मूल	1	19	गुरु	केतु	शुक्र	सम राशि
शनि			वृश्चि	27:17:56	00:06:49	ज्येष्ठा	4	18	मंगल	बुध	गुरु	शत्रु राशि
राहु	व		मीन	06:42:48	00:08:57	उ०भाद्रपद	2	26	गुरु	शनि	बुध	सम राशि
केतु	व		कन्या	06:42:48	00:08:57	उ०फाल्गुनी	4	12	बुध	सूर्य	बुध	शत्रु राशि
हर्ष			धनु	01:41:45	00:03:23	मूल	1	19	गुरु	केतु	शुक्र	---
नेप			धनु	12:43:10	00:01:56	मूल	4	19	गुरु	केतु	बुध	---
प्लूटो			तुला	17:02:55	00:02:19	स्वाति	4	15	शुक्र	राहु	शुक्र	---
दशम भाव			मेष	27:40:50	--	कृतिका	--	3	मंगल	सूर्य	चंद्र	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:41:16


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



Meenna Salaria Astro & Numerio

Delhi

9667113751

salaria.meena@gmail.com

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	कर्क 10:43:08	कर्क 25:19:36
2	सिंह 10:43:08	सिंह 26:06:41
3	कन्या 11:30:13	कन्या 26:53:46
4	तुला 12:17:18	तुला 27:40:50
5	वृश्चिक 12:17:18	वृश्चिक 26:53:46
6	धनु 11:30:13	धनु 26:06:41
7	मकर 10:43:08	मकर 25:19:36
8	कुम्भ 10:43:08	कुम्भ 26:06:41
9	मीन 11:30:13	मीन 26:53:46
10	मेष 12:17:18	मेष 27:40:50
11	वृष 12:17:18	वृष 26:53:46
12	मिथुन 11:30:13	मिथुन 26:06:41


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	कर्क	25:19:36
2	सिंह	24:49:00
3	कन्या	26:22:01
4	तुला	27:40:50
5	वृश्चिक	27:21:43
6	धनु	26:07:01
7	मकर	25:19:36
8	कुम्भ	24:49:00
9	मीन	26:22:01
10	मेष	27:40:50
11	वृष	27:21:43
12	मिथुन	26:07:01


तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 1 वर्ष 7 मास 18 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
23/11/1987	12/07/1989	12/07/2009	13/07/2015	12/07/2025
12/07/1989	12/07/2009	13/07/2015	12/07/2025	12/07/2032
00/00/0000	शुक्र 11/11/1992	सूर्य 30/10/2009	चंद्र 12/05/2016	मंगल 08/12/2025
00/00/0000	सूर्य 11/11/1993	चंद्र 30/04/2010	मंगल 11/12/2016	राहु 27/12/2026
00/00/0000	चंद्र 13/07/1995	मंगल 05/09/2010	राहु 12/06/2018	गुरु 03/12/2027
00/00/0000	मंगल 11/09/1996	राहु 31/07/2011	गुरु 12/10/2019	शनि 10/01/2029
00/00/0000	राहु 11/09/1999	गुरु 18/05/2012	शनि 12/05/2021	बुध 08/01/2030
00/00/0000	गुरु 12/05/2002	शनि 30/04/2013	बुध 12/10/2022	केतु 06/06/2030
23/11/1987	शनि 12/07/2005	बुध 06/03/2014	केतु 13/05/2023	शुक्र 06/08/2031
शनि 15/07/1988	बुध 12/05/2008	केतु 12/07/2014	शुक्र 10/01/2025	सूर्य 12/12/2031
बुध 12/07/1989	केतु 12/07/2009	शुक्र 13/07/2015	सूर्य 12/07/2025	चंद्र 12/07/2032

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
12/07/2032	12/07/2050	12/07/2066	12/07/2085	13/07/2102
12/07/2050	12/07/2066	12/07/2085	13/07/2102	00/00/0000
राहु 25/03/2035	गुरु 29/08/2052	शनि 15/07/2069	बुध 09/12/2087	केतु 09/12/2102
गुरु 18/08/2037	शनि 13/03/2055	बुध 24/03/2072	केतु 05/12/2088	शुक्र 09/02/2104
शनि 24/06/2040	बुध 18/06/2057	केतु 03/05/2073	शुक्र 06/10/2091	सूर्य 15/06/2104
बुध 11/01/2043	केतु 25/05/2058	शुक्र 03/07/2076	सूर्य 11/08/2092	चंद्र 14/01/2105
केतु 29/01/2044	शुक्र 23/01/2061	सूर्य 15/06/2077	चंद्र 11/01/2094	मंगल 13/06/2105
शुक्र 29/01/2047	सूर्य 11/11/2061	चंद्र 14/01/2079	मंगल 08/01/2095	राहु 01/07/2106
सूर्य 24/12/2047	चंद्र 13/03/2063	मंगल 23/02/2080	राहु 27/07/2097	गुरु 07/06/2107
चंद्र 24/06/2049	मंगल 17/02/2064	राहु 30/12/2082	गुरु 02/11/2099	शनि 24/11/2107
मंगल 12/07/2050	राहु 12/07/2066	गुरु 12/07/2085	शनि 13/07/2102	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशों के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 1 वर्ष 7 मा 17 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

मंगल - राहु 08/12/2025 27/12/2026	मंगल - गुरु 27/12/2026 03/12/2027	मंगल - शनि 03/12/2027 10/01/2029	मंगल - बुध 10/01/2029 08/01/2030	मंगल - केतु 08/01/2030 06/06/2030
राहु 04/02/2026 गुरु 27/03/2026 शनि 27/05/2026 बुध 20/07/2026 केतु 11/08/2026 शुक्र 14/10/2026 सूर्य 02/11/2026 चंद्र 04/12/2026 मंगल 27/12/2026	गुरु 10/02/2027 शनि 05/04/2027 बुध 23/05/2027 केतु 12/06/2027 शुक्र 08/08/2027 सूर्य 25/08/2027 चंद्र 23/09/2027 मंगल 12/10/2027 राहु 03/12/2027	शनि 05/02/2028 बुध 02/04/2028 केतु 26/04/2028 शुक्र 02/07/2028 सूर्य 22/07/2028 चंद्र 25/08/2028 मंगल 18/09/2028 राहु 17/11/2028 गुरु 10/01/2029	बुध 03/03/2029 केतु 24/03/2029 शुक्र 23/05/2029 सूर्य 10/06/2029 चंद्र 11/07/2029 मंगल 01/08/2029 राहु 24/09/2029 गुरु 11/11/2029 शनि 08/01/2030	केतु 16/01/2030 शुक्र 10/02/2030 सूर्य 18/02/2030 चंद्र 02/03/2030 मंगल 11/03/2030 राहु 02/04/2030 गुरु 22/04/2030 शनि 16/05/2030 बुध 06/06/2030
मंगल - शुक्र 06/06/2030 06/08/2031	मंगल - सूर्य 06/08/2031 12/12/2031	मंगल - चंद्र 12/12/2031 12/07/2032	राहु - राहु 12/07/2032 25/03/2035	राहु - गुरु 25/03/2035 18/08/2037
शुक्र 16/08/2030 सूर्य 06/09/2030 चंद्र 12/10/2030 मंगल 05/11/2030 राहु 08/01/2031 गुरु 06/03/2031 शनि 13/05/2031 बुध 12/07/2031 केतु 06/08/2031	सूर्य 12/08/2031 चंद्र 23/08/2031 मंगल 30/08/2031 राहु 19/09/2031 गुरु 06/10/2031 शनि 26/10/2031 बुध 13/11/2031 केतु 20/11/2031 शुक्र 12/12/2031	चंद्र 29/12/2031 मंगल 11/01/2032 राहु 12/02/2032 गुरु 11/03/2032 शनि 14/04/2032 बुध 14/05/2032 केतु 27/05/2032 शुक्र 01/07/2032 सूर्य 12/07/2032	राहु 07/12/2032 गुरु 17/04/2033 शनि 20/09/2033 बुध 07/02/2034 केतु 06/04/2034 शुक्र 17/09/2034 सूर्य 05/11/2034 चंद्र 26/01/2035 मंगल 25/03/2035	गुरु 20/07/2035 शनि 06/12/2035 बुध 08/04/2036 केतु 29/05/2036 शुक्र 22/10/2036 सूर्य 05/12/2036 चंद्र 16/02/2037 मंगल 08/04/2037 राहु 18/08/2037
राहु - शनि 18/08/2037 24/06/2040	राहु - बुध 24/06/2040 11/01/2043	राहु - केतु 11/01/2043 29/01/2044	राहु - शुक्र 29/01/2044 29/01/2047	राहु - सूर्य 29/01/2047 24/12/2047
शनि 29/01/2038 बुध 26/06/2038 केतु 26/08/2038 शुक्र 15/02/2039 सूर्य 08/04/2039 चंद्र 04/07/2039 मंगल 03/09/2039 राहु 06/02/2040 गुरु 24/06/2040	बुध 02/11/2040 केतु 27/12/2040 शुक्र 31/05/2041 सूर्य 17/07/2041 चंद्र 02/10/2041 मंगल 26/11/2041 राहु 14/04/2042 गुरु 16/08/2042 शनि 11/01/2043	केतु 02/02/2043 शुक्र 07/04/2043 सूर्य 26/04/2043 चंद्र 28/05/2043 मंगल 20/06/2043 राहु 16/08/2043 गुरु 06/10/2043 शनि 06/12/2043 बुध 29/01/2044	शुक्र 30/07/2044 सूर्य 23/09/2044 चंद्र 23/12/2044 मंगल 25/02/2045 राहु 08/08/2045 गुरु 02/01/2046 शनि 24/06/2046 बुध 26/11/2046 केतु 29/01/2047	सूर्य 15/02/2047 चंद्र 14/03/2047 मंगल 02/04/2047 राहु 21/05/2047 गुरु 04/07/2047 शनि 25/08/2047 बुध 11/10/2047 केतु 30/10/2047 शुक्र 24/12/2047

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	5
भाग्यांक	5
मित्र अंक	3, 5, 9
शत्रु अंक	2, 4, 8
शुभ वर्ष	23,32,41,50,59
शुभ दिन	मंगल, सोम, गुरु
शुभ ग्रह	मंगल, चन्द्र, गुरु
मित्र राशि	मीन, सिंह
मित्र लग्न	तुला, मीन, वृष
अनुकूल देवता	हनुमान
शुभ रत्न	मोती
शुभ उपरत्न	चन्द्रमणि
भाग्य रत्न	पुखराज
शुभ धातु	रजत
शुभ रंग	श्वेत
शुभ दिशा	पश्चिमोत्तर
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	शंख, कपूर, श्वेतचन्दन
दान अन्न	चावल
दान द्रव्य	दही

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
मूंगा	मंगल	100%	सुख, व्यावसायिक उन्नति, सन्तति सुख
पुखराज	गुरु	86%	भाग्योदय, शत्रु व रोग मुक्ति
गोमेद	राहु	81%	भाग्योदय
माणिक्य	सूर्य	73%	सन्तति सुख, धन
मोती	चंद्र	69%	शत्रु व रोग मुक्ति, स्वास्थ्य
लहसुनिया	केतु	59%	पराक्रम, सुख
हीरा	शुक्र	38%	शत्रु व रोग, हानि, ग्रह कलेश
पन्ना	बुध	16%	ग्रह कलेश, व्यय, पराक्रम हानि
नीलम	शनि	9%	सन्तति कष्ट, दाम्पत्य कष्ट, दुर्घटना



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	12/07/1989	61%	56%	100%	16%	86%	50%	0%	69%	72%
शुक्र	12/07/2009	61%	56%	100%	28%	86%	56%	22%	88%	66%
सूर्य	13/07/2015	86%	75%	100%	16%	92%	12%	0%	69%	44%
चंद्र	12/07/2025	80%	81%	100%	28%	86%	38%	9%	69%	44%
मंगल	12/07/2032	80%	75%	100%	0%	92%	38%	9%	69%	66%
राहु	12/07/2050	61%	56%	88%	16%	86%	50%	22%	94%	44%
गुरु	12/07/2066	80%	75%	100%	0%	98%	12%	9%	81%	59%
शनि	12/07/2085	61%	56%	88%	28%	86%	50%	34%	88%	44%
बुध	13/07/2102	80%	56%	100%	41%	86%	50%	9%	81%	59%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	23/11/1987-17/12/1987	-----	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	17/12/1987-21/03/1990	20/06/1990-15/12/1990	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	21/03/1990-20/06/1990	15/12/1990-05/03/1993	15/10/1993-10/11/1993
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	02/06/1995-10/08/1995	16/02/1996-17/04/1998	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	06/09/2004-13/01/2005	26/05/2005-01/11/2006	10/01/2007-16/07/2007

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	02/11/2014-26/01/2017	21/06/2017-26/10/2017	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	26/01/2017-21/06/2017	26/10/2017-24/01/2020	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	24/01/2020-29/04/2022	12/07/2022-17/01/2023	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/03/2025-03/06/2027	20/10/2027-23/02/2028	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----	-----

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	11/12/2043-23/06/2044	30/08/2044-08/12/2046	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	08/12/2046-06/03/2049	10/07/2049-04/12/2049	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	06/03/2049-10/07/2049	04/12/2049-25/02/2052	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	14/05/2054-02/09/2054	05/02/2055-07/04/2057	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	24/08/2063-06/02/2064	09/05/2064-13/10/2065	03/02/2066-03/07/2066

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	सम	सन्तति कष्ट
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	शुभ	शत्रु व रोग
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	शुभ	दम्पति
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	शुभ	भाग्योदय
अष्टम स्थानस्थ ढैया	अशुभ	बुरा स्वास्थ्य

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में है। अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं। इसके प्रभाव से जीवन में आपको भौतिक सुख संसाधनों तथा अन्य जायदाद आदि की प्राप्ति परिश्रम से होगी लेकिन शारीरिक रूप से आप स्वस्थ तथा प्रसन्न रहेंगी। स्वभाव में यदा कदा उग्रता का भाव उत्पन्न हो सकता है लेकिन दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मांगलिक दोष के प्रभाव से आपके विवाह में थोड़ा विलम्ब हो सकता है तथा वैवाहिक वार्ताओं में भी व्यवधान आ सकते हैं लेकिन अंततोगत्वा इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके पति का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा आपसी संबंधों में कुछेक क्षणों को छोड़कर मधुरता बनी रहेगी।

चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति के फलस्वरूप आपको सांसारिक सुख संसाधन परिश्रम पूर्वक प्राप्त होंगे साथ ही सप्तम भाव पर दृष्टि के प्रभाव से पति के स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा। स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहेगा तथा दाम्पत्य जीवन का आप सुख पूर्वक उपभोग करने में समर्थ रहेंगी। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप आप परिश्रम एवं पराक्रम से ही उच्च पद तथा सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करेंगी। एकादश भाव पर दृष्टि के प्रभाव से आपके आय साधनों में सामान्यतया वृद्धि होगी। यदा कदा न्यूनता का भाव भी रहेगा लेकिन इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं रहेगा तथा आपका सामान्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा।

अतः मंगल के शुभ फलों में अधिक अनुकूलता के लिए आपको किसी मांगलिक युवक से विवाह करना चाहिए जिससे आपका मांगलिक दोष भंग हो जाए। इसके लिए पुरुष की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि तथा राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इसके भंग होने से आप सर्वत्र सफलता के

मार्ग पर अग्रसर होंगी तथा सांसारिक सुख संसाधन ऐश्वर्य तथा वैभव की इच्छित प्राप्ति होगी।
दाम्पत्य संबंधों में भी मधुरता का भाव विद्यमान रहेगा।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाद्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाद्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में शंखचूड़ नामक कालसर्प योग विद्यमान है। लेकिन यह केवल आंशिक रूप में विद्यमान है। फलस्वरूप जातक के भाग्योदय होने में थोड़ा बहुत व्यवधान उपस्थित हो जाता है और नौकरी व्यवसाय में भी आंशिक रुकावटें आती हैं परन्तु कालान्तर में व्यवधान हट जाता है। परन्तु नौकरी होने पर अवनति का भय बना रहता है। जातक को आगे बढ़ने में व्यवधान तो आता है पर थोड़ा संघर्ष करने पर वह व्यवधान समाप्त हो जाता है। व्यापार व्यवसाय में थोड़ा बहुत व्यवधान आकर नुकसान को प्राप्त करता है। मित्रों द्वारा छल कपट व्यवहार होने के कारण जातक को क्षति उठानी पड़ती है। पिता के सुख में न्यूनता रहती है। मामा पक्ष से या बहनोई से छल कपट किये जाने पर थोड़ा बहुत कष्ट पाता है।

इस योग के प्रभाव से जातक के शरीर में कभी बिमारियाँ घेर लेती है जिसमें थोड़ा अधिक धन खर्च हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति नाजुक हो जाती है पर कालान्तर में वह सामान्य हो जाता है। जातक को शासन के तरफ से थोड़ा बहुत मुसीबतें आती हैं और अधिकारियों से कभी-कभी मतान्तर हो जाता है एवं न्यायालय से कभी दण्ड जुर्माना या आंशिक रूप से सजा मिल सकती है तथा समय-समय पर चिन्ता परेशानी लग जाती है। जातक का वैवाहिक जीवन सामान्य होते हुए भी कभी-कभी कष्टमय हो जाता है। घर में सुख शान्ति का थोड़ा बहुत अभाव रहता है।

इस योग के कारण जातक अनेक धन्धा करता है, पर स्थाई सफलता सदैव संदिग्ध रहती है। सुख प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत जातक को संघर्ष करना पड़ता है और सामाजिक मान सम्मान व प्रतिष्ठा सामान्य रहती है।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें। अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. 'ॐ नमः शिवाय' का प्रतिदिन 108 बार जप करें। कुल जप संख्या- 21000।
3. ताम्बे के लोटे में नाग के जोड़े बहते पानी में एक बार प्रवाहित करें।
4. नवनाग स्तोत्र का एक वर्ष तक प्रतिदिन पाठ करें।
5. राहु के महादशा, अन्तर्दशा आने पर राहु मन्त्र के जाप कम से कम प्रतिदिन 108 बार करें। जप संख्या अद्वारह हजार (18000) है।
6. शुभ मुहूर्त में अभिमन्त्रित गोमेद धारण करें।
7. श्रावणमास में 30 दिन तक महादेव का अभिषेक करें।
8. सरस्वती जी की एक वर्ष विधिवत उपासना करें।
9. राहु कवच एवं स्तोत्र का पाठ करें।

10. प्रत्येक सोमवार को दही से भगवान शंकर पर - ॐ हर हर महादेव कहते हुए अभिषेक करें। यह केवल 16 सोमवार तक करें।
11. रसोईघर में बैठकर भोजन करें।
12. शुभ मुहूर्त में बहते पानी में कोयला तीन बार प्रवाहित करें।
13. गोमेद, सुवर्ण, तिल, सरसों, नीलवस्त्र, खड़्ग, कम्बल, आदि समय-समय पर दान करें।
14. शुभ मुहूर्त में मुख्य द्वार पर चाँदी का स्वस्तिक एवं दोनो ओर धातु से निर्मित नाग चिपका दें।
15. हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराऊंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- सूर्य पंचम भाव में स्थित है तथा उस पर शनि और राहु का प्रभाव है।
- पंचम भाव में शनि स्थित है एवं राहु से दृष्ट है।
- नवम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में सूर्य, गुरु और शनि के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में सूर्य पितृदोष कारक ग्रह है अतः पिता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ गायत्री जप, सूर्योपासना, आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ, आक की समिधा से हवन करें। रविवार को गाय या बैल को गेहूँ और गुड़ खिलाएं।

आपकी कुण्डली में वृहस्पति पितृदोष कारक ग्रह है अतः दादाजी द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आप विद्वानजनों, वृद्ध ब्राह्मण और पति को दान दें। विद्यालय में पुस्तकों का दान करें।

आपकी कुण्डली में शनि पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा दलित पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ

भगवान रुद्र की पूजा करें। पीपल को जल चढ़ायें व पूजा करें। शम्मी की समिधा से हवन करें। बकरी व शनि प्रीतकारी वस्तुओं का दान करें। गरीब या जरूरतमंदों की सहायता के रूप में दान दें तथा कौए को खाने का पहला ग्रास खिलायें।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

पंचमभाव में सूर्य हो तो जातक अल्पसन्तितिवान्, बुद्धिमान्, सदाचारी, रोगी, दुखी, शीघ्र क्रोधी एवं वंचक होता है।

वृश्चिक राशि में रवि हो तो जातक साहसी, लोभी, चिकित्सक, लोकमान्य, क्रोधी उद्योगी, उदररोगी, पुलिस अधिकारी एवं सेना में उच्चपद प्राप्त करने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य पंचम भाव में स्थित है अतः पिता की आप प्रिय रहेंगी उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा किंचित शारीरिक कष्टानुभूति प्राप्त करते रहेंगे। धनैश्वर्य का उनके पास अभाव नहीं रहेगा एवं जीवन में आपको समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने के लिए अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही आपको वे वांछित आर्थिक सहयोग भी देते रहेंगे जिससे आप को कोई भी कष्ट न हो।

आप भी उनके प्रति पूर्ण आदर का भाव रखेंगी तथा उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा आप के मध्य आपसी मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे संबंधों में तनिक तनाव तथा कटुता उत्पन्न होगी लेकिन कुछ समय के उपरान्त सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप उनकी सुखसुविधा का पूर्ण ध्यान रखेंगी तथा आवश्यकतानुसार उन्हें आर्थिक या अन्य रूप से अपना सहयोग प्रदान करेंगी।

चन्द्र

षष्ठभाव में चन्द्रमा हो तो जातक अल्पायु, आसक्त, कफरोगी, खर्चीले स्वभाववाला, नेत्ररोगी एवं भृत्यप्रिय होता है।

धनु राशि में चन्द्रमा हो तो जातक वक्त, सुन्दर, शिल्पज्ञ, शत्रुविनाशक उच्च बौद्धिक स्तर वाला, सुखी विवाहित जीवन, विरासत में धन सम्पत्ति पाने वाला, साहित्य के प्रति रुचि का दिखावा करने वाला एवं लेखक होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति षष्ठभाव में स्थित है। अतः आप माता की प्रिय रहेंगी उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा शारीरिक रूप से वे दुर्बलता की अनुभूति करेंगी। धन सम्पत्ति से वे प्रायः युक्त रहेंगी तथा जीवन में आपको पूर्ण रूप से हर सम्भव सहयोग तथा सहायता प्रदान करती रहेंगी। इसके साथ ही आपके शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में यदि कोई व्यवधान आएंगे तो उन्हें दूर करने में सर्वदा प्रयत्नशील रहेंगी तथा आपकी सफलता की सर्वदा इच्छुक होंगी।

आप भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा तथा सम्मान की भावना रखेंगी तथा हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगी परन्तु आपके मध्य कभी कभी मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे अप्रिय स्थितियां भी उत्पन्न होंगी लेकिन फिर भी सामान्य संबंध मधुर ही रहेंगे। साथ ही आपको

जीवन में वांछित सहायता एवं सहयोग प्रदान करने की भी आप इच्छुक रहेंगी।

मंगल

चतुर्थभाव में मंगल हो तो जातक सन्ततिवान्, मातृसुखहीन, वाहनसुख, प्रवासी, अग्निभययुक्त, अल्पमृत्यु चा अपमृत्यु प्राप्त करने वाला, कृषक, बन्धुविरोधी एवं लाभ युक्त होता है।

तुला राशि में मंगल हो तो जातक प्रवासी, वक्ता, कामी, परधनहारी, उच्चाकांक्षी, लड़ाकू, कृपालु एवं परस्त्रियों की ओर झुकाव होता है।

आपकी जन्म कुण्डली में मंगल की स्थिति चौथे भाव में है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में स्नेह एवं सम्मान का भाव रहेगा तथा सुख दुःख में आपको हमेशा उनसे वांछित आर्थिक तथा अन्य प्रकार का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। साथ ही व्यापार एवं आजीविका संबंधी कार्यों में भी वे आपकी पूर्ण सहायता करेंगे।

आप भी उनको मन से सम्मान एवं स्नेह प्रदान करेंगी तथा सुख दुःख में सर्वदा उनके साथ रहेंगी एवं यथाशक्ति उनको वांछित आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता भी प्रदान करती रहेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण संबंधों में कटुता या तनाव आएगा परन्तु कुछ समय के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। साथ ही आप एक दूसरे से सहमत भी रहेंगे एवं विश्वास पूर्वक जीवन में परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे।

बुध

चतुर्थभाव में बुध हो तो जातक पण्डित भाग्यवान् नीतिवान्, नीतिज्ञ, लेखक, विद्वान्, बन्धुप्रेमी, उदार, गतिप्रिय, आलसी, स्थूलदेही, वाहनसुखी एवं दानी होता है।

तुला राशि में बुध हो तो जातक आस्तिक, व्यापार दक्ष, वक्ता, चतुर, शिल्पज्ञ, कुटुम्बवत्सल, उदार, अच्छा अन्तर्ज्ञान, वफादार, विनीत संतुलित मन एवं दार्शनिक होता है।

गुरु

नवमभाव में गुरु हो तो जातक पराकमी, धर्मात्मा, पुत्रवान, बुद्धिमान, राजपूज्य, तपस्वी, विद्वान्, योगी, वेदान्ती, यशस्वी, भक्त, भाग्यवान् संन्यास की ओर प्रवृत्ति एवं प्रचुर सन्तान होता है।

मीन राशि में गुरु हो तो जातक लेखक, शास्त्रज्ञ, गर्वहीन, राजमान्य, शान्त, व्यवहार कुशल, दयालु, साहित्य प्रेमी, विरासत में धन सम्पत्ति प्राप्त करने वाला, साहसी एवं उच्चपद पर आसीन होता है।

शुक्र

षष्ठभाव में शुक्र हो तो जातक मितव्ययी, शत्रुनाशक, स्त्रीप्रिय, स्त्रीसुखहीन, बहुमित्रवान्, वैभवहीन, दुराचारी, मूत्ररोगी, दुःखी एवं गुप्तरोगी होता है।

धनु राशि में शुक्र हो तो जातक धनी, बलशाली, स्वोपार्जित द्रव्य द्वारा पुण्य करने वाला, विद्वान्, सुन्दर, लोकमान्य, राज्यमान्य, सुखी घरेलू जीवन, उच्चपद की प्राप्ति एवं प्रभावशाली होता है।

शनि

पंचम भाव में शनि हो तो जातक आलसी, सन्तानयुक्त, चंचल, उदासीन, विद्वान्, भ्रमणशील एवं बातरोगी होता है।

वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक संकीर्ण विचारों वाला, हिंसक, कठोरध्दय, उतावला, कमजोर स्वास्थ्य, बुरी आदतें, दुःखी, विष से खतरा, निर्धन स्त्रीहीन, क्रोधी, कठोर एवं लोभी होता है।

राहु

नवम भाव में राहु हो तो जातक प्रवासी, वातरोगी, व्यर्थ परिश्रमी, दुष्टबुद्धि, भाग्योदय से रहित, तीर्थाटनशील एवं धर्मात्मा होता है।

मीन राशि में राहु हो तो जातक आस्तिक, कुलीन, शान्त, कलाप्रिय और दक्ष होता है।

केतु

तृतीय भाव में केतु हो तो जातक चंचल, वायुजनित रोगों से पीड़ित, भाई बहन विहीन, धनी, व्यर्थवादी एवं भूतप्रेतभक्त होता है।

कन्या राशि में केतु हो तो जातक सदारोगी, मूर्ख, मन्दाग्निरोग एवं व्यर्थवादी होता है।

दशा विश्लेषण

**महादशा :- मंगल
(12/07/2025 - 12/07/2032)**

मंगल की महादशा 12/07/2025 को आरम्भ और 12/07/2032 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 7 वर्ष होगी। आपकी जन्मकुण्डली में मंगल चतुर्थ भाव में स्थित हैं। दशम, एकादश तथा सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है। इसके पूर्व आपकी 10 वर्ष की चन्द्रदशा चल रही थी। सप्तमेश चन्द्र के फलस्वरूप आपको साझेदारी में लाभ हुआ होगा, यात्रा और सुखों की प्राप्ति हुई होगी। इस दशा के दौरान आपको सुख और अधिक परिश्रम किए बगैर धन की प्राप्ति होगी, माता से लाभ मिलेगा और जीवन में प्रगति होगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको जीवन शक्ति, उत्साह और बल प्राप्त होगा। आपको ताप सम्बन्धी बीमारियाँ, बुखार, सरदर्द, संक्रामक रोग या हृदय गति में हल्की गड़बड़ी हो सकती है। इन मामूली पीड़ाओं को छोड़कर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

अर्थ तथा व्यवसाय :

आपकी आर्थिक स्थिति अति उत्तम होगी। आपको अधिक प्रयास किये बगैर लाभ मिलेगा। जमीन-जायदाद तथा माता से लाभ की सम्भावना भी है। आपकी व्यावसायिक कमाई अच्छी होगी। अपनी जीविका के लिए यान्त्रिक तथा अभियन्त्रण, सैन्य सेवा, सर्जन या दन्त चिकित्सक का कार्य या किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी आदि का चयन कर सकते हैं। लोहा-इस्पात, खेल के सामान, दवा, धातु, मशीन अथवा जमीन-जायदाद से सम्बद्ध व्यापार लाभदायक सिद्ध होगा। नौकरीपेशा लोगों की पदान्ति और आय में वृद्धि होगी तथा कार्य-स्थान में वातावरण अनुकूल होगा। आपका बहुमुखी विकास होगा। नौकरी के लिये यह काल अति उत्तम होगा। आपको यश, ख्याति, शक्ति तथा अधिकार की प्राप्ति होगी। व्यवसाय-व्यापार से जुड़े लोगों को साझेदारी के व्यवसाय में लाभ होगा। आपकी आय तथा लाभ में वृद्धि होगी। हर प्रकार के लाभ, ख्याति, प्रतिष्ठा तथा उन्नति के लिये यह दशा अति उत्तम है।

वाहन, यात्रा, सम्पत्ति :

मंगल की अन्तर्दशा में आपको वाहन का सुख मिलेगा। आपको अति सुन्दर वाहन की प्राप्ति होगी। आपको सम्पत्ति, मकान और जमीन की प्राप्ति होगी। चल-अचल सम्पत्ति के लिये यह दशा अति उत्तम है। गुरु की अन्तर्दशा में यात्रा हो सकती है।

शिक्षा :

आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आप अपनी पसन्द के अनुसार विषयों व और संस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। आपका झुकाव गणित, वाणित्य, अभियन्त्रण, भूगर्भ या सैन्य शिक्षा की ओर हो सकता है। आप अपने हर कार्य में सफल होंगे और सफलता की चोटी पर पहुँचेंगे। आप

अपने नेतृत्व-गुणों का प्रदर्शन करेंगे।

परिवार :

परिवार के सदस्यों के साथ आपके सम्बन्ध उत्तम रहेंगे। आपके बच्चे अच्छा करेंगे और आपको उनसे सुख तथा लाभ प्राप्त होगा। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। आपके जीवन साथी को यश, ख्याति, शक्ति और अधिकार की प्राप्ति होगी। आपकी माता को कुछ स्वास्थ्य समस्याएँ, लाभदायक परिवर्तन और लाभ हो सकता है। आपके पिता को साझेदारी के व्यवसाय में लाभ तथा उद्यम में सफलता मिलेगी। आपके छोटे भाई-बहनों को हर तरह लाभ, चहुमुखी समृद्धि तथा धन की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई-बहनों को शत्रुओं पर विजय, उत्तम स्वास्थ्य और ननिहाल से लाभ मिलेगा। उनके साथ आपका सम्बन्ध उत्तम रहेगा। आपके मित्र आपकी बहुत मदद करेंगे। इस दशा में आपको बगैर अधिक प्रयास के सफलता मिलेगी।

अन्तर्दशा :

मंगल की दशा में उसकी अन्तर्दशा के कारण आपको सफलता, यश, श्याति तथा हर प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी। राहु के कारण कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपकी यात्रा हो सकती है जबकि लग्नेश शनि की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपको यश, ख्याति, शक्ति और अधिकार की प्राप्ति होगी। बुध के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ मामूली समस्याएँ आएंगी और समृद्धि की प्राप्ति होगी। केतु आपके लिये कुछ मानसिक समस्याएँ उत्पन्न करेगा। शुक्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप जीवन में उन्नति और बच्चों से सुख मिलेगा सूर्य की अन्तर दशा के कारण परिवर्तन होगा और आध्यात्मिक ग्रन्थों के अध्ययन में रुचि होगी। चन्द्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप साझेदारों से लाभ प्राप्त होगा तथा विवाह और यात्रा होगी।

**अंतर्दशा :- मंगल - राहु
(08/12/2025 - 27/12/2026)**

आपके लिए मंगल की महादशा 12/07/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में दूसरी अंतर्दशा राहु की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 18 दिन होगी। आपके लिए यह 08/12/2025 को प्रारंभ होकर 27/12/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक लाभ, परिवर्तन और लंबी यात्राओं का कारक है।

इस अवधि में आपकी संकल्पशक्ति उत्तम रहेगी। भौतिक सुख उपलब्ध रहेंगे। उच्चपद पर आसीन होंगे। अध्यात्म में रुचि होगी। कोड़ लंबी यात्रा या विदेश यात्रा हो सकती है। आप स्वतंत्रचित्त और अपरंपरावादी हैं। सामाजिक रीतियों का पालन करना श्रेयस्कर होगा। संचार साधनों में सफलता मिल सकती है। छोटे भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साहस का परिचय देंगे।

आपके जीवनसाथी की सक्रियता बढ़ेगी। उनकी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। आपके पिता के धन में वृद्धि होगी। आपकी माता शत्रुओं पर विजयी होंगी। आपके भाई-बहन अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उनका विवाह हो सकता है। उनकी आय बढ़ेगी, आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, उत्तम मित्र बनेंगे।

आपकी संतान तकनीकी विषयों का अध्ययन कर सकती है। अगर से कार्यारत हैं तो निवेश से धनार्जन कर सकते हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे; धन का संचय होगा। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ेंगे। व्यापारियों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हाथ-पैरों में मामूली शिकायत हो सकती है। अरिष्ट से बचाव के लिए राहु मंत्र का जाप करें।

ॐ रां राहवे नमः

**अंतर्दशा :- मंगल - गुरु
(27/12/2026 - 03/12/2027)**

आपकी मंगल की महादशा 12/07/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तीसरी अंतर्दशा बृहस्पति की होगी जिसकी अवधि 11 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 27/12/2026 को प्रारंभ होकर 03/12/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति विवेक, संतान और आध्यात्मिकता का कारक है।

इस अवधि में आप धनी और प्रसिद्ध होंगे। अध्यात्म में रुचि होगी। मष्तिष्क का उत्थान होगा और प्रगति के अवसर आएंगे। दूरस्थ स्थान की यात्रा हो सकती है। शिशु का जन्म हो सकता है। शिक्षण, लेखन और प्रकाशन के लिए समय उत्तम है। समस्याएं सुलझेंगी; शांति

बहाल होगी। परीक्षा में सफलता मिलेगी। वेद, तंत्र मंत्र आदि में रुचि हो सकती है।

आपके जीवनसाथी के परिवार से मधुर संबंध रहेंगे। आपके पिता प्रगति करेंगे, स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर उत्तम होंगे। आपके भाई-बहनों का विवाह हो सकता है, अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, आय में वृद्धि होगी।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो वांछित तबादला हो सकता है; साख में वृद्धि होगी। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ सकते हैं। व्यापारियों को अधिक परिश्रम करना होगा।

आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा। शरीर के निचले अंगों में कोई व्याधि हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए विष्णुजी की अराधना करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - शनि
(03/12/2027 - 10/01/2029)**

आपके लिए मंगल की महादशा 12/07/2025 को आरंभ हुई थी। इस महादशा में चौथी अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 1 मास 9 दिन रहेगी। आपके लिए यह 03/12/2027 को प्रारंभ होकर 10/01/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, सेवा और पश्चिम दिशा का कारक है।

इस अवधि में आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। उच्चपद और प्रोन्नति का संकेत है। आप प्रत्येक कार्य सोच-समझकर करेंगे। निर्माणकार्य कर सकते हैं। शिशु का जन्म हो सकता है, संतान से सुख मिलेगा। सलाहकार के तौर पर कार्य कर सकते हैं। विवाह संभव है। वर्तमान व्यापार में स्थायित्व आएगा या नया व्यापार प्रारंभ करेंगे। सरकारी नौकरी वाले प्रसन्न रहेंगे। विदेश यात्रा हो सकती है। किसी अनुबंध (विशेषकर श्रमिक वर्ग से) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

आपके जीवनसाथी को समृद्धि मिलेगी। पिता को सांसारिक सुख मिलेगा। यात्रा हो सकती है। माता को धन का लाभ होगा, पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आएगा। भाई-बहनों को स्पर्धियों पर सफलता मिलेगी, वे किसी से साझा कर सकते हैं, यात्रा और विवाह संभव हैं।

आपकी संतान के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परीक्षा में सफल होंगे। उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर वे सेवारत हैं तो कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो अवांछित तबादला हो सकता है। परामर्शदाताओं के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। व्यापारी धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पाचन तंत्र का ध्यान रखें। अरिष्ट से बचाव के लिए उड़द की दाल, काले तिल और सरसों का तेल दान करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - बुध
(10/01/2029 - 08/01/2030)**

आपके लिए मंगल की महादशा 12/07/2025 को प्रारंभ हुई थी। इसमें पांचवी अंतर्दशा बुध की है जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन है। आपके लिए यह 10/01/2029 को प्रारंभ होकर 08/01/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध वाणी, शिक्षा और सम्मान का कारक है।

इस अवधि में घरेलू सुख और समृद्धि का योग है। आप जमीन, जायदाद प्राप्त कर सकते हैं; वाहन सुख मिलेगा। आपके बहुत से मित्र होंगे। घर में सब सुख-सुविधाएं रहेंगी, निवास उत्तम होगा। विरासत या पिता द्वारा लाभ मिलेगा। बहुत से मित्र होंगे। घर में सब सुख-सुविधाएं रहेंगी, निवास उत्तम होगा। विरासत या पिता द्वारा लाभ मिलेगा। ज्योतिष आदि पराविद्या से लाभ हो सकता है। कार्यों में सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे, धन कमाएंगे, साख में वृद्धि होगी, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे; समाज में उच्च स्थान रहेगा।

आपके जीवनसाथी कार्य में सफल रहेंगे। पिता उच्चपद पर आसीन होंगे; धन प्राप्त करेंगे। माता धनी होंगी, घरेलू सुख मिलेगा। आपके भाई-बहन बुद्धि द्वारा धन कमाएंगे, घरेलू सुख प्राप्त करेंगे, सरकार से लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय होगी, सम्मान मिलेगा।

आपकी संतान को स्पर्धियों पर विजय पाने के लिए परिश्रम करना होगा। अगर वे सेवारत हैं तो खर्चे अधिक होंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो धन कमाएंगे। परामर्शदाताओं को विदेश से लाभ हो सकता है। व्यापारी लाभ प्राप्त करेंगे, उनकी साख बढ़ेगी।

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। छाती के रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए हरे वस्त्र, मिश्री, कपूर का दान करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - केतु
(08/01/2030 - 06/06/2030)**

आपके लिए मंगल की महादशा 12/07/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा केतु की है जिसकी अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी। आपके लिए यह 08/01/2030 को प्रारंभ होकर 06/06/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु नाना और मोक्ष का कारक है।

इस अवधि में आप शत्रुओं पर विजयी होंगे। धन और समस्त सुख-सुविधाओं से युक्त रहेंगे। भाइयों से संबंध बिगड़ सकते हैं। आप अध्यात्म में रुचि लेंगे, संसार से मोह कम हो सकता है। लघु यात्राओं से लाभ हो सकता है; लेखन से धन कमा सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। भाग्य साथ देगा।

आपके जीवनसाथी भाग्यशाली रहेंगे और धनी बनेंगे। आपके पिता को साझेदारी से

लाभ होगा। माता अध्यात्म में रुचि लेंगी। आपके भाई-बहन उच्चपद प्राप्त करेंगे; धन, प्रसिद्धि, निवेश से लाभ, शिक्षा में सफलता, संतान से सुख के संकेत हैं।

आपकी संतान को प्रसिद्धि मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो हर प्रकार से लाभ होगा ; भाग्य और सफलता के संकेत हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे, लोकप्रियता बढ़ेगी। परामर्शदाताओं की व्यस्तता बढ़ेगी, शत्रुओं पर विजय होगी। व्यापारी धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बाहों में दर्द की शिकायत हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए शनिवार और बृहस्पतिवार को उपवास करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - शुक्र
(06/06/2030 - 06/08/2031)**

आपके लिए मंगल की महादशा 12/07/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अन्तर्दशा शुक्र की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 2 मास होगी। आपके लिए यह 06/06/2030 को प्रारंभ होकर 06/08/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, कला और नफासत का कारक है।

इस अवधि में आपकी कार्यक्षमता उत्तम रहेगी। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। मामापक्ष से लाभ होगा। विलास के साधनों पर धन खर्च हो सकता है। कर्ज का भुगतान करने में सक्षम होंगे। विवाद या मुकदमे में विजय होगी। मातहत सहयोग करेंगे। जीवन में सब सुख होंगे। धन, अचल संपत्ति और वाहन का संकेत है।

आपके जीवनसाथी धन का संचय करेंगे, सब सुख उपलब्ध होंगे। आपके पिता की आय पर्याप्त होगी, लोकप्रिय बनेंगे। माता को धन और सफलता प्राप्त होंगे। भाई-बहनों की शिक्षा उत्तम होगी, परिवार से संबंध मधुर होंगे, उन्हें जीवनसाथी से लाभ मिल सकता है। आपकी संतान को कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर वे सेवारत हैं तो विभिन्न माध्यमों से धन कमाएंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाताओं का समय सौभाग्यशाली रहेगा, जबकि व्यापारियों के खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं।

स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है; विशेषकर चोट, उत्सर्जन तंत्र और उदर की व्याधियों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए शुक्र मंत्र का जाप करें।

ॐ शुं शुक्राय नमः